


सं. 4 : सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(करोड़ रुपए)

नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के मामले में)/ अंतिम शुक्रवार	1990-91	2008-09	2009-10(अ)	2009					2010		
				मार्च	सितं.	अक्तू.	नवं.	दिसं.	जन.	फर.	मार्च(अ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
सूचना देनेवाले बैंकों की संख्या	271	166	164	166	165	165	165	165	164	164	164
बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (1)	6,486	1,00,116	1,00,398	1,00,116	80,412	79,807	74,422	86,146	79,006	83,091	1,00,398
बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशि (2), (12)	5,443	48,856	63,971	48,856	54,304	51,715	50,031	53,994	55,278	56,165	63,971
बैंकों से उधार (3)	967	29,487	30,468	29,487	19,898	22,380	18,828	26,615	18,192	21,068	30,468
अन्य मांग और मीयादी देयताएं (4)	76	21,773	5,959	21,773	6,209	5,712	5,562	5,538	5,536	5,858	5,959
अन्य के प्रति देयताएं (1)	2,05,600	42,55,566	49,21,327	42,55,566	45,32,201	46,21,293	46,44,510	46,49,444	47,26,661	48,12,637	49,21,327
कुल जमाराशि (5)	1,92,541	38,34,110	44,86,574	38,34,110	41,18,603	41,83,284	42,00,661	42,15,348	42,99,396	43,67,349	44,86,574
मांग	33,192	5,23,085	6,39,137	5,23,085	5,54,660	5,41,003	5,31,468	5,50,004	5,63,263	5,71,464	6,39,137
मीयादी (5)	1,59,349	33,11,025	38,47,436	33,11,025	35,63,943	36,42,281	36,69,193	36,65,345	37,36,133	37,95,885	38,47,436
उधार (6)	470	1,13,936	1,04,501	1,13,936	94,442	1,32,049	1,28,150	1,20,830	1,03,202	1,05,486	1,04,501
अन्य मांग तथा मीयादी देयताएं (4), (13)	12,589	3,07,520	3,30,253	3,07,520	3,19,156	3,05,959	3,15,699	3,13,265	3,24,063	3,39,801	3,30,253
रिज़र्व बैंक से उधार (7)	3,468	11,728	42	11,728	—	—	—	—	—	240	42
मीयादी बिल /वचन पत्रों पर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अन्य	3,468	11,728	42	11,728	—	—	—	—	—	240	42

सारणी संबंधी टिप्पणियां देखें।

चुनिंदा बैंकिंग समुच्चय



सं. 4 : सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार (समाप्त)

(करोड़ रुपये)

नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के मामले में)/ अंतिम शुक्रवार	1990-91	2008-09	2009-10(अ)	2009					2010		
				मार्च	सितं.	अक्तू.	नवं.	दिसं.	जन.	फर.	मार्च(अ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
उपलब्ध नकदी तथा रिज़र्व बैंक के पास शेष	25,665	2,58,475	3,06,722	2,58,475	2,50,480	2,68,259	2,56,377	2,72,330	2,60,479	3,06,446	3,06,722
उपलब्ध नकदी	1,804	20,281	25,331	20,281	24,798	26,060	27,768	25,133	26,236	26,751	25,331
रिज़र्व बैंक के पास शेष (9)	23,861	2,38,195	2,81,390	2,38,195	2,25,681	2,42,199	2,28,609	2,47,196	2,34,244	2,79,695	2,81,390
बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	5,582	1,22,571	1,29,567	1,22,571	93,319	83,590	80,961	1,01,048	90,226	1,01,403	1,29,567
अन्य बैंकों के पास शेष	2,846	52,909	59,408	52,909	50,810	46,192	43,963	50,420	51,022	53,844	59,408
चालू खाते में	1,793	11,810	11,934	11,810	11,052	9,692	9,674	11,270	10,450	10,726	11,934
अन्य खातों में	1,053	41,099	47,474	41,099	39,759	36,500	34,289	39,150	40,572	43,118	47,474
मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	1,445	15,038	14,933	15,038	9,906	11,633	10,407	20,795	10,985	14,091	14,933
बैंकों को अग्रिम (10)	902	2,904	9,894	2,904	2,384	1,922	1,994	2,954	2,196	2,815	9,894
अन्य आस्तियां	388	51,721	45,333	51,721	30,218	23,843	24,597	26,879	26,023	30,653	45,333
निवेश	75,065	11,66,410	13,82,684	11,66,410	13,72,085	13,49,839	13,82,702	13,61,410	14,02,421	13,80,674	13,82,684
सरकारी प्रतिभूतियों में (11)	49,998	11,55,786	13,75,704	11,55,786	13,64,083	13,42,342	13,75,441	13,54,262	13,95,649	13,74,164	13,75,704
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	25,067	10,624	6,980	10,624	8,003	7,497	7,260	7,148	6,772	6,510	6,980
बैंक ऋण (14)	1,16,301	27,75,549	32,40,399	27,75,549	28,74,670	28,87,191	29,09,141	29,71,932	30,31,224	30,92,750	32,40,399
	(4,506)	(46,211)	(48,489)	(46,211)	(42,418)	(39,904)	(42,355)	(45,239)	(43,915)	(47,891)	(48,489)
ऋण, नकदी ऋण तथा ओवरड्राफ्ट	1,05,982	26,75,677	31,17,933	26,75,677	27,71,417	27,84,387	28,08,625	28,64,741	29,23,757	29,78,246	31,17,933
देशी बिल - खरीदे गए	3,375	11,714	11,789	11,714	10,387	10,110	10,132	11,243	11,468	11,620	11,789
देशी बिल - भुनाए गए	2,336	43,157	62,047	43,157	49,296	51,667	47,437	53,802	55,763	58,169	62,047
विदेशी बिल - खरीदे गए	2,758	18,522	16,079	18,522	17,270	16,169	16,725	16,323	15,486	17,322	16,079
विदेशी बिल - भुनाए गए	1,851	26,479	32,551	26,479	26,300	24,859	26,222	25,823	24,751	27,392	32,551
नकदी - जमा अनुपात	13.3	6.7	6.8	6.7	6.1	6.4	6.1	6.5	6.1	7.0	6.8
निवेश - जमा अनुपात	39.0	30.4	30.8	30.4	33.3	32.3	32.9	32.3	32.6	31.6	30.8
ऋण - जमा अनुपात	60.4	72.4	72.2	72.4	69.8	69.0	69.3	70.5	70.5	70.8	72.2